

By Regd. Post

To,  
The District Judge,  
Rampur.

Receipt 83

3/11/01 4  
No: 14600 /N-2942/Admn.A. Dt: 11-10-2001

Sub: Regarding payment of conveyance allowance to Sri-Subhash Chandra, Add. Civil Judge (Tr. Div.) Rampur.

G.O. Admn. A-1

May kindly see the letter dt: 21-8-01 of Sri-Subhash Chandra and since the officer is not a self drawing officer as such the conveyance allowance is to be drawn by DDO Rampur & paid to the officer as per rules.


Therefore, may request DRCM to issue?

By  
3.10.01.

DRCM

May kindly becase the above office report and issue?

AS Chandu  
3.10.2001

  
4/10/01  
AS. J. M.

Sir,

With reference to your end: No: 335/I, dated: 22-8-01, on the above subject I am directed to return herewith the conveyance allowance certificate alongwith photocopies of registration certificate in respect of car owned by Sri. Subhash Chandra and to say that since the officer is not a self drawing officer and he is drawing his salary and other allowances through D.D.O of Rampur Judgeship, as such it is requested that necessary action under the provisions contained in G.O. No: 867/II-4-45(12)/91 TC dt: 15-3-96 and subsequent G.O. No: 318/II 1-4-2001-45(12)/91 TC-4 dt: 30-5-2001 be taken at your end.

Yours faithfully

  
4/10/01  
Deputy Registrar.

Encl: As above.

11/9/2001

13/9/2001

19241
12/2942
3

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,  
अपर सिविल जज & जू. डि. &  
रामपुर।

Request No.

1-10-01

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
रामपुर।

विषय:- वाहन भत्ते के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने वाहन भत्ते के सम्बन्ध में दि० 28-6-2001 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जो कि श्रीमान जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया । माननीय-उच्च न्यायालय के परिपत्र सं. 10095/W-2942/एड.ए-1 दिनांकित अगस्त 9, 2001 के द्वारा प्रार्थी से वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था । प्रार्थी वाहन सं. पी.यू.आई. 1635 के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर रहा है । उक्त वाहन प्रार्थी के नाम दि० 28-2-2000को परिवहन कार्यालय में अंकित किया गयाथा, जिसका स्पष्ट विवरण संलग्नक-1 के पृष्ठ-1 पर अंकित किया गया है ।

श्रीमान जी के सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।  
आदर सहित ।

दिनांक: 21-8-2001

भवदीय

*Shaw*  
21.8.2001  
सुभाष चन्द्र

अपर सिविल जज & जू. डि. &  
रामपुर।

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, RAMPUR.

No. 335/I Dated: 20-8-2001

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

*[Signature]*  
District Judge,  
Rampur.

02  
3585  
S.O. Akhanna H/A

*[Signature]*  
D. R. [Signature]  
12-9-2001

32  
*[Signature]*  
2 SEP 2001

*[Signature]*  
KKS  
Re  
3/17

To,  
The District Judge,  
Rampur.

Request (2)

No. <sup>2</sup> 10095 / IV-2942 / Admn. A.I. Dt. 18.8.2001

Sub: Regarding grant of conveyance allowance to Sri. Subhash Chand, Addl. Civil Judge (Jr. Div.) Rampur.

Sir,

With reference to your endorsement No. 272 / I, dt. 28-6-01, on the above subject, I am directed to request you kindly to ask Sri. Subhash Chand to furnish the duly attested or Registration Certificate photocopy of transfer showing clearly that Fiat Premier Admini Car bearing Registration NO: PVI-1635 has been transferred in his name by the seller as this fact is not ascertainable from a ~~the~~ <sup>unattested</sup> photo copies of page 8 and 9 of details of instalment of Tax furnished to

S.O. Admn. A.I.


May kindly

peruse the letter dt. 28.6.01 of Sri. Subhash Chand, Addl. Civil Judge, Rampur & request DR (M) to issue?

But  
30.7.01.


DR (M)  
May issue?  
D. B. Pandey  
30.7.2001  
S.O. A.I.

For

  
D. B. Pandey  
S.O. A.I.

the Court.

Yours faithfully

  
Deputy Registrar,  
10/8/201

17/7/2001

Register No.	10527
Page No.	IV/2942
Serial No.	1

Request 03

207-2001

24/7

B 24-7-2001

प्रेषक,

सुभाषा चन्द्र,  
 अपर सिविल जज जू. डि. इ.,  
 रामपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
 रामपुर।

विषय:- वाहन भत्ता के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 23-5-2001 को अपर सिविल जज जू. डि. इ. के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। प्रार्थी को कोई शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में दिनांक 23-5-2001 से फिफ्टेन डिमीटर <sup>परमनी</sup> कार पी०यू०आई० 1635 का प्रयोग कर रहा है। अभी तक प्रार्थी को कोई वाहन भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के वेतन के साथ वाहन-भत्ता प्रदान करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नक-

- 1- सिजी वाहन प्रयोग करने का प्रमाणपत्र।
- 2- संजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित - प्रतिलिपि।

भवदीय

Shah 16.6.2001  
 सुभाषा चन्द्र

अपर सिविल जज जू. डि. इ.,  
 रामपुर।

Admn (A)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रामपुर।  
 पत्रांक: 272/I दिनांक: 28/6/2001

निबन्धाक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

LKR  
 28/7  
 2001

JRCM

जनपद न्यायाधीश,  
 रामपुर। 25/6

18 JUL 2001